

# भुगतान और निपटान प्रणाली

## सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

### भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	विव 2018-19	2018	2019		विव 2018-19	2018	2019	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ए निपटान प्रणाली</b>								
<b>वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)</b>								
<b>1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)</b>	-	-	2.78	2.83	-	-	10655649	12196681
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	-	-	1.01	1.04	-	-	6869045	8085475
1.1.1 आउटराइट	-	-	0.63	0.61	-	-	862104	853262
1.1.2 रेपो	-	-	0.19	0.21	-	-	2359755	2950776
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	-	-	0.19	0.21	-	-	3647186	4281437
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	-	-	1.74	1.75	-	-	3525359	3831685
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	-	-	0.04	0.04	-	-	261245	279520
<b>बी. भुगतान प्रणाली</b>								
<b>I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)</b>								
<b>1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)</b>	-	-	133.87	136.02	-	-	8679806	10316937
1.1 ग्राहक लेनदेन	-	-	131.61	133.82	-	-	7469569	8847761
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	-	-	2.27	2.20	-	-	1210237	1469176
<b>II खुदरा</b>								
<b>2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.7)</b>	-	-	18750.48	20029.92	-	-	2226348	2440803
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	-	-	0.64	0.84	-	-	33	35
2.2 एपीबीएस \$	-	-	1364.56	1369.14	-	-	6908	6000
2.3 ईसीएस जमा	-	-	0.17	0.10	-	-	61	53
2.4 आईएमपीएस	-	-	2280.75	2564.67	-	-	202904	210934
2.5 एनएसीएच जमा \$	-	-	722.06	674.26	-	-	92562	79028
2.6 एनईएफटी	-	-	2194.59	2336.88	-	-	1734651	1942231
2.7 यूपीआई @	-	-	12187.71	13084.02	-	-	189229	202521
2.7.1 जिसमें से यूएसएसडी@	-	-	0.74	0.80	-	-	13	14
<b>3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.4)</b>	-	-	766.41	790.71	-	-	70199	72455
3.1 भीम आधार पे @	-	-	6.46	7.37	-	-	97	112
3.2 ईसीएस नामे	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-
3.3 एनएसीएच नामे \$	-	-	758.18	769.31	-	-	70097	72306
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	-	-	1.77	14.02	-	-	5	37
<b>4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)</b>	-	-	6062.09	6615.52	-	-	137707	149688
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	-	-	1762.12	2036.64	-	-	60130	65736
4.1.1 पीओएस आधारित \$	-	-	1033.52	1181.09	-	-	31730	35157
4.1.2 अन्य \$	-	-	728.60	855.55	-	-	28401	30579
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	-	-	4299.96	4578.88	-	-	77577	83953
4.2.1 पीओएस आधारित \$	-	-	2483.18	2634.18	-	-	37007	39740
4.2.2 अन्य \$	-	-	1816.79	1944.70	-	-	40570	44213
<b>5 प्रीपेड भुगतान साधन (5.1 से 5.2)</b>	-	-	4672.07	5072.36	-	-	17844	18922
5.1 वालेट	-	-	3354.08	3651.56	-	-	14652	15835
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	-	-	1317.99	1420.80	-	-	3192	3088
5.2.1 पीओएस आधारित \$	-	-	123.86	121.90	-	-	738	1012
5.2.2 अन्य \$	-	-	1194.13	1298.91	-	-	2454	2076
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	-	-	866.12	865.46	-	-	644802	646583
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	-	-	864.86	864.44	-	-	643678	645573
6.2 अन्य	-	-	1.26	1.02	-	-	1124	1010
<b>कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	-	-	31117.17	33373.97	-	-	3096901	3328451
<b>कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	-	-	31251.05	33509.98	-	-	11776707	13645388
<b>कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	-	-	30384.93	32644.52	-	-	11131905	12998805

## भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)				
	विव 2018-19	2018		2019		विव 2018-19	2018		2019
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	दिसंबर		नवंबर	दिसंबर	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ए. अन्य भुगतान चैनल</b>									
<b>1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)</b>									
1.1 इंटर-बैंक \$	-	-	13534.23	14322.15	-	-	471295	493342	
1.2 इंटर-बैंक \$	-	-	1234.84	1280.66	-	-	96802	101679	
<b>2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)</b>									
2.1 इंटर-बैंक @	-	-	12299.40	13041.49	-	-	374494	391663	
2.2 अंतर-बैंक @	-	-	2687.09	2703.04	-	-	2490599	2968937	
<b>बी. एटीएम</b>									
<b>3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)</b>									
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	6305.28	6518.97	-	-	285376	293087	
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	7.99	8.91	-	-	381	422	
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	6269.60	6481.81	-	-	284083	291704	
<b>4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)</b>									
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	27.68	28.25	-	-	912	961	
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	66.63	79.45	-	-	130	176	
<b>5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @</b>									
5.1 एईपीएस @	-	-	62.30	72.40	-	-	125	162	
	-	-	4.32	7.05	-	-	5	14	
	-	-	339.83	326.35	-	-	9648	9163	
	-	-	339.83	326.35	-	-	9648	9163	

## भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	विव 2018-19	2018		2019	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	
<b>भुगतान प्रणाली अवसंरचना</b>					
<b>1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)</b>					
1.1 क्रेडिट कार्ड	-	-	8851.69	8606.57	
1.2 डेबिट कार्ड	-	-	544.11	553.33	
<b>2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)</b>					
2.1 वॉलेट @	-	-	8307.59	8053.24	
2.2 कार्ड @	-	-	17253.28	17625.43	
<b>3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)</b>					
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	-	-	16243.87	16615.68	
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	-	-	1009.41	1009.75	
<b>4 माइक्रो एटीएम की संख्या @</b>					
	-	-	2.32	2.32	
<b>5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या</b>					
	-	-	2.10	2.10	
	-	-	0.22	0.22	
<b>6 भारत क्यूआर @</b>					
	-	-	2.35	2.42	
	-	-	48.83	49.88	
	-	-	15.94	18.89	

@: दिसंबर 2019 से नया समावेश

\$: दिसंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

- कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए दिसंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रैन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
- केवल धरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।